



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2010/पौष 25, 1931

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2010/PAUSA 25, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2010

का.आ. 86(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिने कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1981 (1981 का 33) की धारा 6 के साथ पठित सिने कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 3 के उप-नियम (1), नियम 4 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) और नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 26 दिसम्बर, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2183(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1. श्रम और रोजगार मंत्री, —अध्यक्ष”
भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।

[फा. सं. यू-23012/01/2006-डब्ल्यू-II (सी)]
अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2010

S.O. 86(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) read with sub-rule (1) of rule 3, sub-rules (1) and (2) of rule 4 and rule 16 of the Cine Workers Welfare Fund Rules, 1984, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2183(E), dated the 26th December, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th December, 2009, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

“1. Minister of Labour and —Chairman”
Employment, Government of India,
Ministry of Labour and Employment,
Shram Shakti Bhawan,
New Delhi.

[F. No. U-23012/01/2006-W.II(C)]
ANIL SWARUP, Director General (Labour Welfare)/
Jt. Secy.